



प्रेस नोट

दिनांक- 20.09.2022

थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा ममता एचपी फिलिंग स्टेशन मैथा पर लूट की घटना का पर्दाफाश कर 04 नफ़र अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदया कानपुर देहात द्वारा चलाये जा रहे अपराध नियंत्रण व वांछित/इनामियाँ अपराधियों की गिरफ्तारी के अभियान व अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी रसूलाबाद के निकट पर्यवेक्षण में थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ममता एचपी फिलिंग स्टेशन मैथा पर लूट करने वाले 04 नफर अभियुक्तगणों को दिनांक- 20.09.2022 को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि दिनांक 24.08.2022 को वादी पीयूष लाल पुत्र स्व० दयाशंकर लाल निवासी एमआईजी 1/25 बर्गा-7 थाना बर्गा कानपुर नगर ने तहरीर दी कि दिनांक 24.08.2022 को आवेदक के पेट्रोल पम्प पर रात्रि में करीब 02:30 बजे 02 मोटर साइकिल पर सवार 04 अज्ञात लोगो ने पेट्रोल पम्प पर आकर वहाँ पर मौजूद सेल्समैन व चौकीदार एवं मेरे साथ लाठी डण्डों से मारपीट कर मेरे आफिस का शीशा तोड़ दिया गया व रुपये छीन कर भाग गये। जिसकी सूचना पर थाना शिवली में मु०अ०सं०- 286/22 धारा 394/427/411 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। दिनांक 20.09.2022 को मुखबिर खास की सूचना पर थाना शिवली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये लूट की घटना कारित करने वाले 04 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

घटना कारित करने का तरीका- पूछताछ में अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि हम लोग पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल लेने गये थे, इनके द्वारा पेट्रोल देने से इन्कार कर दिया गया जिस कारण हम लोगों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम पता-

1. अमन शुक्ला पुत्र गोविन्द शुक्ला उम्र 24 वर्ष निवासी मारग मैथा थाना शिवली कानपुर देहात
2. राज उर्फ आर्यन सिंह पुत्र धर्मेन्द्र सिंह उम्र 18 वर्ष निवासी टिकरी थाना शिवली कानपुर देहात
3. मोहित उर्फ माना पुत्र मस्ताना सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी सरैया लालपुर थाना शिवली कानपुर देहात
4. सूरज सिंह पुत्र वंशराज सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी सरैया लालपुर थाना शिवली कानपुर देहात

बरामदगी-

1. 01 अदद लूट का मोबाइल व 700 रुपये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार सिंह थाना शिवली कानपुर देहात
2. उ०नि० श्री ज्ञान प्रकाश पाण्डेय थाना शिवली कानपुर देहात
3. हे०का० 270 विनोद कुमार थाना शिवली कानपुर देहात
4. का० 890 गौतम कुमार थाना शिवली कानपुर देहात
5. का० 1038 बीनू कुमार थाना शिवली कानपुर देहात

**मीडिया सेल
जनपद कानपुर देहात।**